



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

22 ज्येष्ठ 1934 (श0)
(सं0 पटना 248) पटना, मंगलवार, 12 जून 2012

जल संसाधन विभाग

अधिसूचना

9 अप्रैल 2012

सं० 22/नि0सि0(वीर0)-07-05/2003/343—श्री वीरेन्द्र सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, (आई0डी0-3415) पूर्वी कोशी तटबंध अवर प्रमण्डल, सुपौल द्वारा उनके उक्त प्रमण्डल के पदस्थापन अवधि में बरती गयी अनियमितताओं के संदर्भ में मुख्य अभियन्ता, जल संसाधन विभाग, वीरपुर से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरान्त श्री सिंह, सहायक अभियन्ता के विरुद्ध प्रथम द्रष्टया प्रमाणित आरोप के लिए सरकार के निर्णयोपरान्त विभागीय आदेश सं० 04-सह-पठित ज्ञापांक 22, दिनांक 16 जनवरी 2004 से निलंबित करते हुए विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत करने का निर्णय संसूचित किया गया।

उक्त निर्णय के आलोक में विभागीय संकल्प-सह-ज्ञाप सं० 196, दिनांक 29 अप्रैल 2004 से सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली के नियम-55 में विहित रीति से विभागीय कार्यवाही चलायी गयी।

श्री सिंह का निलंबन दो वर्ष से अधिक हो जाने के कारण कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग के पत्रांक 8537, दिनांक 6 जुलाई 1981 के आलोक में सरकार के निर्णयोपरान्त श्री सिंह को निलंबन से मुक्त करने का निर्णय लिया गया है। श्री सिंह के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के अंतिम निष्पादनोपरान्त निलंबन अवधि पर निर्णय लिया जायेगा।

उक्त निर्णय के आलोक में श्री वीरेन्द्र सिंह, तत्कालीन सहायक अभियन्ता, को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन से मुक्त किया जाता है।

उक्त आदेश श्री सिंह को संसूचित किया जाता है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
भरत झा,
सरकार के उप-सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 248-571+10-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>